



V2 Retail Limited

August 24, 2017

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 4000 51	BSE (Bombay Stock Exchange) Limited, 25 th Floor, "Phiroze Jeejeebhoy Towers", Dalal Street, Mumbai - 400001
---	---

Dear Sir,

Ref. Stock Code: 532867

Sub: Submission of Newspaper Cutting of Postal Ballot Notice published in Newspapers

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed the Newspaper cuttings of the Postal Ballot Notice published in the newspapers, Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 23rd August, 2017.

Kindly take the same in your records.

THANKING YOU
For V2 Retail Limited

(Ram Chandra Aggarwal)
(Chairman and Managing Director)
(DIN: 00491885)

Address: B1-801, Lagoon Apartment,
Ambience Island, Gurgaon - 122002, Haryana



from 10.00 a.m. (IST) on Wednesday, 23rd August, 2017. End of voting upto 5:00 p.m. on Thursday, 23rd August, 2017. The Postal Ballot Forms should reach not later than the close of working hours on Thursday, 23rd August, 2017, 5:00 p.m. (IST). Postal Ballot Forms received after the said date will be deemed to be not valid.

Members who have not received the Postal Ballot Notice and/or Postal Ballot Form sent by Company may download the same from the Company's website: www.rmcsindia.in or send a request to the Company at cs@rmcsindia.in to obtain a duplicate thereof. In case any Member has any query or grievance relating to voting by Postal Ballot voting, he/she may address the same to the Company Secretary Priyanka Gattani at cs@rmcsindia.in.

The result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer Report will be announced on Friday, 23rd August, 2017 at the Registered Office of the Company situated at 7 Km. from Chaksu, Khotkawa Road, Village Badodiya, Tehsil Chaksu, Tonk Road, Jaipur-303901, Rajasthan. The said results would be displayed at Company's website, www.rmcsindia.in and will also be intimated to BSE.

By Order of the Board of Directors
For RMC Switchgears Limited

Place: Jaipur
Date: 22.08.2017

Sd/
Priyanka Gattani (Company Secretary)

RMC SWITCHGEARS LIMITED
(Formerly known as RMC Switch Gears Limited)
Reg. Off: 7 Km. from Chaksu, Khotkawa Road, Village Badodiya, Tehsil Chaksu, Tonk Road, Jaipur-303901, Rajasthan
Corporate Office: B-11 (B&C) Malviya Industrial Area, Jaipur-302017 • CIN: L2710RJ1994PLC008698
E-Mail ID: info@rmcsindia.in • Website: www.rmcsindia.in • Contact No: 0141-4081616, 4430222

Form PAS-1

[Pursuant to section 27(1) and rule 7 (2) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014] Advertisement giving details of notice of special resolution for varying the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued.

Corporate Identification Number (CIN) - L2731RJ1994PLC008698

Name of the company- RMC Switchgears Limited

Registered office address- 7 Km. from Chaksu, Khotkawa Road, Village Badodiya, Tehsil Chaksu, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan, India- 303901

Public Notice

Notice is hereby given that pursuant to a resolution dated August 22, 2017, the Board of Directors of RMC Switchgears Limited (the "Company") have proposed to vary the terms of the objects of the Issue referred to in the prospectus dated February 20, 2017 (the "Prospectus") issued in connection with the issue of 15,36,000 equity shares with a face value of 10/- each issued at a price of Rs. 27/- per equity share (including share premium of Rs. 17/- per equity share) for consisting of a fresh issue of 7,68,000 equity shares aggregating upto Rs. 207.36 Lakh on the "Fresh Issue" and an offer for sale of 7,68,000 equity shares by the selling shareholders aggregating to Rs. 207.36 Lakh (The "Offer for Sale" and together with the Fresh Issue, the "Issue").

In pursuance of the said resolution, further notice is given that for approving the said proposition, a special resolution is to be passed by postal ballot.

The details regarding such variation/alteration are as follows:-

- Particulars of the terms of the contract to be varied for objects to be altered:** The disclosures in the Prospectus regarding utilization of the net proceeds of the issue included (i) To Meet Working Capital Requirement (ii) General Corporate Purpose and (iii) To Meet the Issue Expenses. The Company proposes to deploy the unutilized amount, being Rs. 150 Lakh (the Unutilised Amount) for the objects and in the manner mentioned as below.
- Particulars of the proposed variation/alteration:** The Company propose to utilize the Unutilised Amount to provide margin against the term loan raised for the new plant for manufacturing of "imitation Marble and Wooden Surfaces for walls and floors" (PVC marble and Solid surface) during the FY 2017-18. The schedule of deployment as mentioned above is based on internal management estimates of the Company, assessed in light of current circumstances of the Company's business. The actual amounts to be spent in a particular financial year for the proposed objects may be different than the amount set out above.
- Reasons/justification for the variation:** One of the purposes for raising the funds by way of IPO was to satisfy the working capital requirement of the company. Now the company has been sanctioned with sufficient working capital limit from their Bankers. In this changed scenario, the fund raised for IPO remains unutilised. Now company is under process to diversify company's existing business activities in the field of manufacturing "Imitation Marble and Wooden Surfaces for walls and floors" (PVC marble and Solid surface) and for the same company needs additional funds towards margin against the term loan raised for this project.
- Effect of the proposed variation/alteration on the financial position of the company:** The company will be able to reduce the finance cost by changing the purpose as otherwise it would have been required to raise unsecured loan bearing interest and hence the interest cost saved on Rs. 150 Lakh would be the positive impact on the Statement of Profit & Loss. The cash flows of the Company would be improved by aforesaid interest saving amount.
- Major Risk factors pertaining to the new Objects:** General risks associated with the business, individually or together, but not limited to, could adversely affect our business, financial conditions, results of operations or prospects etc. that apply to or affect our policies, regulatory actions and technological changes etc. that apply to or affect our business including developments affecting the Indian economy; (ii) We are substantially dependent on revenues from sales to Indian customers. Changes in or termination of policies of State Governments in India, may have a material adverse effect on our business; (iii) Projects included in our order book may not ultimately be confirmed, may be modified or cancelled, or there may be delays in execution; (iv) Demand for our products and services depends on the activity and new capital expenditure levels in the imitation marble sector; and (v) Our operations are dependent on the timely supply of quality raw materials and components at commercially acceptable prices and we are dependent on a limited number of suppliers for key raw materials and components.
- Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration:** None.

Any interested person may obtain the copy of the special resolution along with the explanatory statement, free of charge at the registered office of the company or at the office of its Company Secretary Ms. Priyanka Gattani at B-11 (B&C) Malviya Industrial Area, Jaipur 302017 or cs@rmcsindia.in or visit the website of the Company viz. www.rmcsindia.in for obtaining copy of the same.

By Order of the Board of Directors
For RMC Switchgears Limited

Place: Jaipur
Date: 22.08.2017

Sd/
Priyanka Gattani (Company Secretary)

V2 Retail Limited

Regd. Office: Kharsa No. 928, Extended Lat Dora Abadi, Village Kapashera, Tehsil Vasant Vihar, New Delhi, South West Delhi - 110037
CIN: L74999DL2004PLC147724 Ph: 011-41771850
Email ID: cs@vri.net.in website: www.v2retail.com

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of Companies Act, 2013 ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company as on 22nd August, 2017 completed the Dispatch of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot forms to all the members whose name appears on the Register of members/ List of beneficial owners as on 18th August, 2017, the postal Ballot Notices are sent (a) through electronic mail to the members whose E-mail ids are registered in records of depository participants and (b) through physical mode, along with the postage prepaid self-addressed Business reply Envelope to those members whose email ids are not registered with the Depository participants. The Postal Ballot Notice are sent for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot including voting by electronic means, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolution
1.	Special resolution for amendment of Memorandum of Association of the Company to align it with the Companies Act, 2013
2.	Special Resolution for alteration of object clause of the Memorandum of Association of the Company

Pursuant to the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 and rules framed there under and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the company has provided to the members the facility to cast their votes by electronic means (e-voting) through Central Depository Service Limited (CDSL) for the said resolutions set out in the Postal Ballot notice. The soft copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are available on the Company's website www.v2retail.com.

The Company has provided remote e-voting facility to all its members as an alternate for dispatching the physical Postal Ballot form by post. Shareholders holding share whether in physical form or in dematerialized form may cast their form electronically by following the instruction on remote e-voting provided in Postal Ballot Notice. In case members cast their vote by Physical Ballot and remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail and Physical Ballot voting will be treated as invalid.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on 18th August, 2017 (Cut-off Date). A person who was not a Member as on Cut-Off Date for reckoning voting rights, should treat this Notice for information purpose only.

The Board of directors have appointed Mr. Sharwan Kumar Goel, Practising Chartered Accountant as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot process (including e-voting) in a fair and transparent manner. Voting Period through postal ballot and e-voting commences on Wednesday, 23rd August, 2017 at 09:00 a.m. and ends at 05:00 p.m. on Thursday, 21st September, 2017. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot forms should reach the scrutinizer not later than 05:00 p.m. on Thursday, 21st September, 2017. Postal Ballots received after the closure of working hours on Thursday, 21st September, 2017 (05:00 p.m.) will not be considered as valid. Further, voting whether by post or by electronic means (i.e. remote e-voting) shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Thursday, 21st September, 2017.

Members are requested to use the Postal Ballot Form issued by company only. Any Member who does not receive the Postal Ballot form can seek duplicate Postal Ballot form from the Company by sending a request mail on cs@vri.net.in. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot form can also be downloaded from Company's website www.v2retail.com or website of the CDSL i.e. www.evotingindia.com.

The persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password by sending a request to company at cs@vri.net.in or to CDSL at www.evotingindia.com.

The scrutinizer will submit his report to Chairman of the Company after completion of the Scrutiny. The result of Postal Ballot shall be declared by the Chairman on or before Saturday, 23rd September, 2017 on or before 5:00 p.m. at the Registered Office of the Company. The said results would be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to CDSL and the Stock Exchanges where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's Report on the Company's website viz. www.v2retail.com and on the website of the CDSL i.e. www.evotingindia.com.

For any queries / grievances relating to voting by postal ballot (including e-voting), members are requested to refer the frequently asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the help section of www.evotingindia.com or contact Mr. Umesh Kumar, Company Secretary and Compliance Officer also Mr. Vipin Kaushik, CFO, Telephone No: 011-41771850. For any query in relation to resolution proposed to be passed, members may contact the undersigned at Kharsa No. 928, Extended Lat Dora Abadi, Village Kapashera, Tehsil Vasant Vihar, New Delhi- 110037 or write an email to cs@vri.net.in.

For V2 Retail Limited
Sd/
Ram Chandra Agarwal
Chairman & Managing Director
DIN: 00491885

Place: New Delhi
Date: 22.08.2017

S
11
S
12
13
14
15
16
17
Terms
1. Th
2. La
3. To
4. Tr
5. d
6. r
7. O
Date

subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Baldev Singh Kashwal, Practising Company Secretary (Membership No. FCS-3616 & CP No. 3169), Partner, M/s. RSM & Co., Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.


The detailed procedure for e-voting are contained in the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting can be addressed to Mr. Tushar Goel, Share Department, CM-28 (First Floor), Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T.Road, Ghaziabad 201 009, (UP), Tel.: 0120-4506900, 0120-2866880, Fax: 0120-4506910, Email: info@amritagro.com.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Equity Shareholders of the Company will remain closed from Wednesday, September 13, 2017 to Tuesday, September 19, 2017 (both days inclusive) for the purpose of annual closure of books.

For Amrit Agro Industries Limited

Place: Ghaziabad
Date : 21.08.2017

(V K Bajaj)
Director




ONGC
मंत्रालय
मंत्रालय
मंत्रालय

एमआरपीएल

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
CIN : L24209KA1989SG0008959



MRPL

एमआरपीएल पर उपलब्ध गैर-व्यवसायिक अपशिष्ट निपटारा हेतु एक्सप्रेसशन ऑफ इंटरेस्ट

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), मैसूर अंतर एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की सहायक कंपनी है। प्रक्रिया / उपयोजिता इकाइयों से उत्पन्न निम्नलिखित गैर-व्यवसायिक अपशिष्ट को प्रोसेसर / सिंसाइक्लिंग द्वारा जैसा है जहाँ है (as & where basis) के आधार निपटारा करना हेतु।

- 1) अपशिष्ट इन्सुलेशन सामग्री लगभग 30 मीट्रिक टन (Al₂O₃, SiO₂, CaO, Fe₂O₃)
- 2) अपशिष्ट क्लिंग टॉवर फिल्म लगभग 20 मीट्रिक टन (PVC)
- 3) अपशिष्ट एल्युमिना बोल्स लगभग 5 मीट्रिक टन (Al₂O₃, SiO₂)
- 4) अपशिष्ट गियोलाइट सामग्री लगभग 10 मीट्रिक टन (Al₂O₃, SiO₂, Fe₂O₃)
- 5) अपशिष्ट सिलिका जेल क्रिस्टल लगभग 5 मीट्रिक टन (Al₂O₃, SiO₂)

उपरोक्त मात्रा केवल संकेतक है। अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा अपशिष्ट के लोड होने के दौरान भिन्न हो सकती है।

एमआरपीएल, को प्रोसेसर / रिफाइनरी को हान्य करने की इच्छा रखता है, जो एमआरपीएल साइट, मे सामान का लदान करे। क्षमता ट्रांसपोर्टेशन से अनलोडिंग करने के साथ-साथ अपशिष्ट की हैडलिंग और निपटारा करे।

कार्य के विस्तृत विवरण और किसी भी तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए जीएम (एचएमई), एमआरपीएल, संपर्क नंबर: 0824-2882811, ई-मेल आईडी: aithal@mrpl.co.in से संपर्क करें।


सभी क्रेडेंशियल्स / दस्तावेज, जीएम (सामग्री) को संबोधित करेंगे और नीचे दिए गए पते पर दिनांक 15/09/2017 को या उससे पहले अग्रपिठ किए जाएंगे।

महाप्रबंधक, सामग्री विभाग, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, पोस्ट कुत्तूर, चाया कटिपल्ला, मंगलूर-575 030.

पूर्ण विवरण के लिए, कृपया हमारी वेब साइट www.mrpl.co.in पर जाएं।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि सविष्ट में सभी शुद्धिकरण, परिवर्तन, एक्सप्रेसशन प्रस्तुत करने की तारीख आदि, केवल एमआरपीएल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाएंगे।

आइए, मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएँ



V2
Retail

वी2 रिटेल लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 920, एमआरपीएल, आर.डी. एन. रोड, गगां, ग.टी. रोड, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009
कार्यालय: गजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009
CIN : 74309DL2001PLC 47724, फोन: 011-41774650
ईमेल आईडी: cs@v2retail.com, वेबसाइट: www.v2retail.com

सूचना

कम्पनी (प्रत्यक्ष एवं प्रकाशन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के अनुसार में सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने इन सभी सदस्यों को आक मतपत्र फार्म के साथ आक मतपत्र की सूचना भेजने का कार्य 22 अगस्त, 2017 को पूरा कर दिया है जिसके मांग 18 अगस्त, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर/सामग्री स्वामियों की सूची में शामिल है। आक मतपत्र सूचना (क) उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक गैल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी डिवाइस/प्रतिभागियों के रिकॉर्ड में पंजीकृत है और (ख) उन सदस्यों को आक टिकट प्रिण्ट सू-पला लिखे ध्वजसाथ उत्तर लिफाफे के साथ भौतिक आरूप के माध्यम से भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी डिवाइस/प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है। आक मतपत्र सूचना निम्नलिखित मांगती पर इलेक्ट्रॉनिक पदारी द्वारा वोटिंग सक्षम आक मतपत्र द्वारा कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन चाहने हेतु भेजी गई है:

क्र. सं.	प्रस्ताव का विवरण
1.	कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुकूल कम्पनी के संस्था के महिनिियम में संशोधन के लिए विशेष प्रस्ताव
2.	कम्पनी के संस्था के महिनिियम के विषय अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रक्रिया एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन कथित एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2015 के अनुसार में कम्पनी ने सदस्यों को आक मतपत्र सूचना में निर्धारित सक्षम प्रस्तावों पर सेट्टल डिवाइस/प्रतिभागियों (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पदारी (ई-वोटिंग) के द्वारा अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की है। आक मतपत्र सूचना और आक मतपत्र फार्म की साइट कोपी कम्पनी की वेबसाइट www.v2retail.com पर उपलब्ध है।

कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को आक द्वारा भौतिक आक मतपत्र फार्म भेजने के लिए वैकल्पिक रूप से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। भौतिक आरूप का डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक आरूप में रोजरधारण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक आक मतपत्र सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य भौतिक मतपत्र और रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट देना है तो रिमोट ई-वोटिंग से दिया गया वोट मान्य होगा और भौतिक मतपत्र वोटिंग को अर्थ माना जाएगा।

सदस्यों का वोटिंग अधिकार 18 अगस्त, 2017 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रपत्र इतिहासों से पंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपातिक होगा। सदस्य को वोटिंग अधिकारों की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं था, यह इस सूचना को केवल जानकारी का प्रयोजन मानें।

निदेशक मंडल ने आक मतपत्र प्रक्रिया (ई-वोटिंग सहित) को सही एवं पारदर्शी तरीके से अग्रोपिठ करने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर श्री अरुण कुमार गोवाल, प्रेशर वार्टर एकाउंटेंट को नियुक्त किया है। आक मतपत्र और ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अंतिम बुधवार, 23 अगस्त, 2017 को सां. 9:00 बजे अंतिम होगी और बुधवार, 21 सितंबर, 2017 को सां. 5:00 बजे समाप्त होगी। सदस्यमान कृपया नोट करें कि विधिवत पूर्ण एवं हस्ताक्षरित आक मतपत्र फार्म पर्यवेक्षक के पास बुधवार, 21 सितंबर, 2017 को सां. 5:00 बजे तक पहुंचाने चाहिए। बुधवार, 21 सितंबर, 2017 (सां. 5:00 बजे) को कार्यालय घंटों की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले आक मतपत्र को अर्थ माना जाएगा। इसके अलावा, वोटिंग घंटे आंक या इलेक्ट्रॉनिक पदारी (अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग) की अनुमति बुधवार, 21 सितंबर, 2017 को सां. 5:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि केवल कम्पनी द्वारा जारी आक मतपत्र का उपयोग करें। कोई सदस्य जिसे आक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वह cs@v2retail.com पर मेल द्वारा अनुरोध भेजकर कम्पनी से बुकरीकेड आक मतपत्र प्राप्त कर सकता है। आक मतपत्र सूचना और आक मतपत्र फार्म कम्पनी की वेबसाइट www.v2retail.com या सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

पंजा व्यक्ति जिसके पास शेयर है और वह सूचना भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य मानता है तो वह cs@v2retail.com पर कम्पनी को या www.evotingindia.com पर सीडीएसएल को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

पर्यवेक्षक जांच पूरी करने के बाद कम्पनी के अध्यक्ष के पास अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। अध्यक्ष द्वारा आक मतपत्र का परिभाषा बुधवार, 23 सितंबर, 2017 को सां. 9:00 बजे या उससे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा। कथित परिभाषा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना सीडीएसएल और स्टॉक एक्सचेंज, जहां कम्पनी के शेयर प्रतीकृत हैं, को भी दी जाएगी तथा कम्पनी की वेबसाइट www.v2retail.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

आक मतपत्र (ई-वोटिंग सहित) द्वारा वोटिंग से जुड़ी किसी भी प्रश्ना/सिंकाश के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध प्रश्नों के लिए अर्थ पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सूचक में प्रश्न का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@v2retail.com पर ई-मेल भेजें या श्री जगेश कुमार, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी और श्री विपिन कोशिक, पीएफओ, फोन नं. 011-41771850 से संपर्क करें। सदस्यमान परित होने वाले प्रस्तावित संचालकों के कथन में किसी भी प्रश्ना/सिंकाश के लिए ध्यान नं. 928, विस्तारित कार. और आर.डी. एन. रोड, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 में अग्रोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं या cs@v2retail.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22.08.2017

डूतो वी2 रिटेल लिमिटेड
हस्ता/—
राम चंद अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN 00491885